



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 26 अप्रैल, 2023

बैशाख 6, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-10

संख्या 367/6-पु०-10-2023

लखनऊ, 26 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

प०आ०-356

चूँकि आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2016) (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 4(4)(ख) (दो) में ऐसे प्रयोजन, जैसा कि केन्द्र सरकार, प्राधिकरण के परामर्श से और राज्य के हित में विहित करे, के लिये स्वैच्छिक आधार पर अधिप्रमाणन कराने की अनुज्ञा प्रदान की गयी है;

और, चूँकि, भारत सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (जिसे आगे 'उक्त प्राधिकरण' कहा गया है) के परामर्श से सुशासन के लिये आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 बनायी है जिसके अधीन राज्य सरकार का विभाग, जो स्वैच्छिक आधार पर आधार अधिप्रमाणन का उपयोग करने का इच्छुक हो, तत्सम्बन्ध में प्राधिकरण को निर्दिष्ट किये जाने हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करके प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त कर सकता है;

और, चूँकि, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने कार्यालय ज्ञाप संख्या एफ संख्या 13(4)/2020-ईजी-2(वाल्सूम-चार), दिनांक 26 सितम्बर, 2022 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4(4)(ख) (दो) के साथ पठित उक्त नियमावली के नियम 5 के निबन्धनों के अनुसार पहचान के प्रयोजनार्थ स्वैच्छिक आधार पर भर्ती प्रक्रिया के समस्त चरणों में अभ्यर्थियों के अधिप्रमाणन हेतु आधार का उपयोग करने के लिये राज्य सरकार की पूर्व सहमति से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को अनुज्ञा प्रदान करने के निमित्त प्राधिकरण के अनुमोदन से अवगत करा दिया है;

अतएव, अब, उक्त नियमावली के नियम 5 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, पहचान के प्रयोजन के लिये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को उसकी भर्ती प्रक्रिया के समस्त चरणों में स्वैच्छिक आधार पर आधार अधिप्रमाणन की अनुज्ञा प्रदान करती हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड पहचान की पद्धतियाँ पृथक-पृथक अधिसूचित करेगा, यदि अभ्यर्थी अपने आधार का उपयोग करते हुए अधिप्रमाणन न कराना चाहता हो।

आज्ञा से,
संजय प्रसाद,
प्रमुख सचिव।

No. 367/VI-P-10-2023
Dated Lucknow, April 26, 2023

WHEREAS section 4 (4) (b) (ii) of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Act no. 18 of 2016) (hereinafter referred to as the "said Act") allows performing Aadhaar authentication on voluntary basis for such purpose, as the Central Government in consultation with the Authority and in the interest of the State, may prescribe;

AND, WHEREAS, the Central Government, in consultation with Unique Identification Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority") has framed the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the "said rules") whereunder the Department of the State Government desirous of utilizing Aadhaar authentication on voluntary basis can seek permission from the Authority by submitting a proposal thereon to the Central, Government for making a reference to the Authority;

AND, WHEREAS, the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India vide Office Memorandum f. no. 13(4)/2020-EG-II (Vol-IV), dated 26th September, 2022 has conveyed the approval of the Authority to allow the Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board to use Aadhaar for authentication of candidates in all stages of recruitment process, on voluntary basis, with prior concurrence of the State Government for the purpose of Identification in terms of rule 5 of the said rules read with section 4 (4) (b) (ii) of the said Act;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under rule 5 of the said rules, the Governor is pleased to allow the Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board to seek Aadhaar authentication, on voluntary basis, at all stages of its recruitment process for the purpose of identification.

The Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board shall separately notify the methods of identification in case the candidate does not intend to authenticate using his/her Aadhaar.

By order,
SANJAY PRASAD,
Pramukh Sachiv.